

रक्षा लेखा महानियंत्रक
Controller General of Defence Accounts
उलान बटार रोड, पालम, दिल्ली कैंट 110010
Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt- 110010

सं. प्रशा/XIV/14162/छठवां वेतन आयोग/परिपत्र/जिल्द-IV
AN/XIV/14162/Vith CPC/Circular/VoI-IV

दिनांक: 25/05/2012

सेवा मे,

सभी प्रधान/रक्षा लेखा नियंत्रक
All PCDA/CDA
(Through CGDA Mail Server)

Sub: Children Education Allowance/Hostel Subsidy-Clarification.

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० 12011/07/2011-Estt. (AL) दिनांक 23/05/2012 की प्रति सूचना, मार्गदर्शन एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है।

A copy of Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions (Department of Personnel & Training) OM No. 12011/07/2011-Estt.(AL) dated 23/05/2012 on the above subject is forwarded herewith for your information, guidance and necessary action please.

(जे.सी.पाण्डे)

कृते रक्षा लेखा महानियंत्रक

प्रतिलिपि:-

1. प्रशासन 4 अनुभाग (स्थानीय)
2. लेखा परीक्षा- 1,2,4 (स्थानीय)
3. लेखा परीक्षा (समन्वय) अनुभाग (स्थानीय)
4. ई डी पी सेन्टर (स्थानीय) ---- रक्षा लेखा महानियंत्रक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
5. प्रशिक्षण एवं संगोष्ठी केन्द्र, बरार स्क्वायर, दिल्ली छावनी
6. पुस्तकालय अनुभाग (स्थानीय)
7. मास्टर नोट बुक (प्रशासन 14)

(जे.सी.पाण्डे)

कृते रक्षा लेखा महानियंत्रक

No.12011/07/2011-Estt.(AL)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
(Department of Personnel & Training)


New Delhi, Dated 23rd May, 2012.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Children Education Allowance/Hostel Subsidy-Clarification-

.....

The undersigned is directed to refer to Department of Personnel & Training's O.M.No.12011/03/2008-Estt.(AL) dated 2nd September, 2008 and subsequent clarification No.12011/08/2010-Estt.(AL) dated 30th December, 2010 on the above subject and to say that this Department has been receiving various references seeking clarification whether fee charged by schools for teaching through audio-visual aids can be reimbursed. It is clarified that fee paid to the school for the use of any aid or appliances by the child is reimbursable. Hence, if fee is charged by the school for teaching through audio-visual tools, the same is reimbursable as "fee" mentioned in para 1(e) of the O.M. mentioned above.



(Vibha G. Mishra)
Director

To

1. All Ministries/Department of the Government of India
2. Office of the Comptroller & Auditor General of India/Controller General of Accounts, Ministry of Finance.
3. Secretaries to UPSC/Supreme Court of India/Lok Sabha Sectt./Rajya Sabha Sectt./Cabinet Sectt./Central Vigilance Commission/Planning Commission.
4. President's Sectt./Vice President's Sectt./Prime Minister's Office/
5. All State Governments and Union Territories Administration.
6. All Members of the Staff Side of the National Council of JCM/Departmental Council.
7. Railway Board, New Delhi.
- ✓ 8. copy to NIC, DOP&T with the request to upload the OM on the website.